



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 118]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2001/फाल्गुन 7, 1922

No. 118]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2001/PHALGUNA 7, 1922

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2001

का.आ. 162(अ).—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के स्थापन में उनके उरान, महाराष्ट्र स्थित संयंत्र में पाइपों की मरम्मत और पाइन लाइनों को बदलने का कार्य करने के लिए मददगार के कार्य में लगे ठेका श्रमिक के नियोजन को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रतिषिद्ध करती है।

[फा. सं. यू-23013/8/2000-एल डब्ल्यू]

एस. के. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2001

S.O. 162(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby prohibits with effect from the date of publication of this notification the employment of contract labour in the job of helper engaged for executing the work of repairing pipes and replacing pipelines in the establishment of Oil and Natural Gas Corporation Limited at their plant, Uran, Maharashtra.

[F. No. U-23013/8/2000-LW]

S. K. DAS, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2001

का.आ. 163(अ).—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 779(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि इस अधिसूचना के उपबंध, पशु पालन विभाग की राष्ट्रीय पशु महामारी उन्मूलन परियोजना के स्थापन, गेट नं. 32, प्रथम तल, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली को 31 मार्च, 2002 तक भवन की सुरक्षा के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे, कि ठेका श्रमिक को संदत्त की जाने वाली मजदूरी, स्थापन के समरूप नियमित कर्मचारी को संदत्त न्यूनतम परिलब्धि से कम नहीं होगी, जिसमें मूल वेतन और मंहगाई भत्ता सम्मिलित है :

परंतु यह और भी कि अधिसूचना डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सहयोजित अस्पताल, नई दिल्ली को एक वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होगी कि ठेका श्रमिक को संदत्त की जाने वाली मजदूरी अस्पताल के किसी नियमित कर्मचारी के निम्नतम प्रवर्ग को संदत्त न्यूनतम परिलब्धि से कम नहीं होगी, जिसमें मूल वेतन और मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।”

[फा. सं. एस-16012/04/2000-एल डब्ल्यू]

एस. के. दास, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना का. आ. 779(अ) तारीख 9 दिसंबर, 1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्तर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :—

- (क) मूल अधिसूचना, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, खांडवा रोड, इंदौर को लागू नहीं की गई थी जो भवनों की निगरानी के कार्य के संबंध में 10 मार्च, 1999 से दो वर्ष की अवधि के लिए जारी की गई थी।
- (ख) मूल अधिसूचना, आई एन एस उत्क्रोश, आई एन एस, डेगा और आई एन एस मंडोवी को लागू नहीं की गई थी जो भवनों की निगरानी के कार्य के संबंध में 13 अगस्त, 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए जारी की गई थी।
- (ग) मूल अधिसूचना, निम्नलिखित अवस्थित रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालयों को लागू नहीं की गई थी जो का. आ. 1236(अ) तारीख 13 दिसम्बर, 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए जारी की गई थी—
 - (i) सी-II ब्लॉक और बी ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के पीछे, नई दिल्ली;
 - (ii) एल-ब्लॉक, एम ब्लॉक और प्लॉट नं. 108, नार्थ ब्लॉक के पीछे, नई दिल्ली;
 - (iii) जी ब्लॉक, एच ब्लॉक और जे ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के पीछे, नई दिल्ली; और
 - (iv) वैस्ट ब्लॉक III, V, VI और VII, आर. के. पुरम, नई दिल्ली।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2001

S.O. 163(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 779(E), dated the 9th December, 1976, namely :—

In the said notification after the proviso, the following provisos shall be inserted namely :—

“Provided further that the provisions of this notification shall not apply to the establishment of the National Project on Rinderpest Eradication, Department of Animal Husbandry, Gate No. 32, First Floor, Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi, for guarding the building up to 31st March, 200 subject to the condition that wages to be paid to contract labour shall not be less than the minimum emoluments consisting of basic plus dearness allowance paid to the similar regular employee of the establishment :

Provided that the notification shall not apply to Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Safdarjung Hospital, New Delhi, and Lady Harding Medical College and Associated Hospital, New Delhi, for a period of one year subject to the condition that wages to be paid to contract labour shall not be less than the minimum emoluments consisting of basic plus dearness allowance paid to the lowest category of a regular employee of the hospital.”

[F. No. S-16012/04/2000-LW]

S.K. DAS, Jt. Secy.

Footnote :—The principal notification was issued vide number S.O. 779(E) dated 9th December, 1976 and subsequently amended vide number :—

- (a) The principal notification was not made applicable to National Research Centre for Soyabean, Khandwa Road, Indore vide S.O. 163(E) dated the 10th March, 1999 for a period of two years from the 10th March, 1999 in job of watching of buildings.
- (b) The principal notification was not made applicable to INS Utkrosh, INS Dega and INS Mandovi vide S.O. 661(E) dated 13th August, 1999 for a period of one year from 13th August, 1999 in the job of watching of buildings.
- (c) The principal notification was not made applicable vide S.O. 1236(E) dated 13th December, 1999 for a period of one year from 13th December, 1999 to the offices of the Joint Secretary (Training) and Chief Administrative Officer of the Ministry of Defence located in :—
 - (i) C-II Block and B Block, behind South Block, New Delhi;
 - (ii) L-Block, M Block and Plot No. 108, behind North Block, New Delhi;
 - (iii) G-Block, H Block and J Block, behind South Block, New Delhi; and
 - (iv) West Block III, V, VI and VIII, R.K. Puram, New Delhi.